



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
PCCIT, AP & TELANGANA

To, CHAVAN HOSPITALS 14-10-1124 DHOOLPET,OPP TO MAHAKALI TEMPLE HYDERABAD 500006,Telangana India	
--	--

PAN: AAPFC4638R	Dated: 30/07/2026	DIN & Order No : ITBA/COM/F/17/2026-27/1091625241(1)
---------------------------	-----------------------------	--

Sir/ Madam/ M/s,

Subject: Proceedings under section 17(2) - Order

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (b) के तहत
अनुमोदन, जिसे आयकर नियम, 1962 के नियम 3A(1) और 3A(2) के साथ तथा आयकर
अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(e) के साथ पढ़ा जाए।

**APPROVAL UNDER SUB-CLAUSE (b) OF CLAUSE (ii) OF THE PROVISIO TO CLAUSE
(2) OF SECTION 17 OF THE INCOME TAX ACT, 1961, READ WITH RULES 3A(1) & 3A(2)
OF INCOME TAX RULES, 1962 READ WITH SECTION 536(2)(e) OF INCOME TAX ACT,
2025**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के परंतुक (ii)(b) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद क्षेत्र, एतद्वारा किसी अस्पताल को
अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3A(1) और 3A(2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में
रखते हुए, **M/s Chavan Hospitals, PAN: AAPFC4638R, situated at Sai Nagar Colony, RCI
Road, Balapur, Saroor Nagar, Ranga Reddy**, में स्थित है, को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के
खंड (2) के परंतुक के खंड (ii) के उक्त उप-खंड (b) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income
Tax under proviso (ii)(b) to clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the
Principal Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad Region hereby having regard to the
guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of
approval to a hospital, grant approval to **M/s Chavan Hospitals, PAN: AAPFC4638R,
situated at Sai Nagar Colony, RCI Road, Balapur, Saroor Nagar, Ranga Reddy**, for the

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
ROOM NO:1031,10TH FLOOR 'C' BLOCK, I T TOWER, AC Guards, Masab Tank, HYDERABAD, Andhra Pradesh, 500004
Email: HYDERABAD.PCCIT@INCOMETAX.GOV.IN, Office Phone:23237946

purposes of the said sub-clause(b) of clause (ii) of the proviso to clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

2. नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि, जो कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर, ऊपर बताए गए अस्पताल में, आयकर नियम, 1962 के नियम 3A(2) में बताई गई निम्नलिखित निर्धारित बीमारियाँ या रोगों के संबंध में वास्तव में किए गए खर्च के लिए दी गई हो, उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी के हाथों में 'परक्विज़िट' (अतिरिक्त लाभ) नहीं माना जाएगा:-

Any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned Hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of Income Tax Rules, 1962, shall not be treated as perquisite in the hands of the employee for the purposes of sections 15,16& 17 of the Income Tax Act, 1961:-

नियम 3A(2) का उप- नियम/ Sub-rule of Rule 3A(2)	निर्धारित रोग या बीमारियाँ / Prescribed diseases or ailments
(a)	cancer;
(b)	tuberculosis;
(c)	acquired immunity deficiency syndrome;
(d)	disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gallbladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
(e)	ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
(f)	fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment;
(g)	gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention;
(h)	ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(i)	gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;

नियम 3A(2) का उप- नियम/ Sub-rule of Rule 3A(2)	निर्धारित रोग या बीमारियाँ / Prescribed diseases or ailments
(j)	burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(k)	mental disorder – neurotic or psychotic – requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(l)	drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days;
(m)	anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

3. नियोक्ता ऐसी राशि के संबंध में धारा 192 के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

The employer will not be liable to deduct tax at source u/s 192 in respect of such sum.

4. दी गई यह मंजूरी, भारत सरकार, या आयकर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना), या सरकार के अधीन किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण की, किसी अन्य उद्देश्य के लिए दी गई मंजूरी के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए।

The approval accorded should not be construed as approval of the Government of India or the Principal Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh & Telangana, or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह मंजूरी किसी भी समय वापस ली जा सकती है, यदि यह पाया जाता है कि यह मंजूरी तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके हासिल की गई है, या आयकर नियम, 1961 के नियम 3A के उप-नियम (1) में बताई गई ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं की गई हैं; और यदि मंजूरी से जुड़े नियमों में बाद में हुए बदलावों के कारण ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसमें बदलाव/वापसी की जा सकती है।

This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in Sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1961 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in provisions governing the approval.

6. यह मंजूरी **28.07.2026** से लागू होगी और **27.07.2029** तक प्रभावी रहेगी। यह मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि अस्पताल, ऐसी मंजूरी के लिए ज़रूरी नियम 3A(1) के तहत वैधानिक शर्तों का लगातार पालन करता रहे, और साथ ही, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मंजूरी को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी संशोधन के कारण ज़रूरी हो

सकने वाले बदलावों का भी पालन करे।

This approval takes effect from 28.07.2026 and shall remain in force till 27.07.2029. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under the Income Tax Act, 1961.

7. यह अनुमोदन नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

This approval is subject to terms & conditions as mentioned hereunder:


1. यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और केवल उन परिसरों पर लागू होता है जिन पर अस्पताल का कब्ज़ा है, जैसा कि इस आदेश के पैरा 1 में उल्लेख किया गया है। This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.
2. अस्पताल, आयकर विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा, जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं। The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officers of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.
3. अस्पताल को आयकर नियम, 1961 के नियम 3A(1) और 3A(2) में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। यदि यह संस्थान कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करना बंद कर देता है, तो प्रधान अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना तत्काल दे। The hospital shall confirm to such conditions as prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1961. In the event the establishment ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Principal Officer to notify the authority issuing this approval of such fact immediately.
4. अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए आवेदन, वर्तमान अनुमोदन की समाप्ति से कम से कम **90 दिन** पहले जमा किया जाना चाहिए। The application for renewal of approval should be submitted at least **90 days** before the expiry of current approval.
5. अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि आयकर नियम, 1961 के नियम 3A में निर्दिष्ट सभी शर्तें अभी भी पूरी हो रही हैं, और यह कि मूल आवेदन में बताए गए तथ्यों में कोई भी महत्वपूर्ण/सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। For the purpose of extension of approval, a certificate should be filed to the effect that all the conditions specified in Rule 3A of the Income Tax Rules, 1961 continue to be satisfied and that no substantive/material change has occurred in the facts reported in the original application.
8. यह आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(ख) के तहत आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ई) के प्रावधानों के साथ पारित किया गया है।

This order passed u/s 17(2)(b) of Income Tax Act, 1961 in conjunction with the provisions of the Section 536(2)(e) of the Income Tax Act, 2025.

SURESH BATTINI
PCCIT, AP & TELANGANA

Copy to:

1. All the Pr.Chief Commissioners of Income Tax(CCA) in India
2. The Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad
3. The Director General of Income Tax(Inv), Hyderabad
4. All the Pr.CsIT / CsIT in AP & TS Region
5. The Office file/Guard file



SURESH BATTINI
PCCIT, AP & TELANGANA

(In case the document is digitally signed please
refer Digital Signature at the bottom of the page)